



रामाज्ञा स्कूल, नॉएडा
VI / सिल्वरज़ोन / २०१७ -१८
ओलिंपियाड अभ्यास पत्र

प्र०. निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

आज से करीब डेढ़ हजार साल पहले चीन में बारूद का आविष्कार हुआ। फिर ईसा की ग्यारहवीं सदी में चीनियों ने राकेट बनाए। लगभग उसी समय भारत को भी बारूद की जानकारी मिली। भारत को यह जानकारी या तो चीनी कीमियागरों से मिली या भारतीय बन्दरगाहों में पहुंचने वाले चीनी व्यापारियों के ज़रिए। आज भी आतिशबाजी के पटाखों का सबसे ज़्यादा उत्पादन दक्षिण भारत में ही होता है। राकेटों का भी ज़्यादा इस्तेमाल दक्षिण भारत के युद्धों में ही हुआ है। राकेटों के लिए लोहे के खोलों का इस्तेमाल संभवतः भारत की ही खोज है।

(1) बारूद का आविष्कार निम्नलिखित में से किस देश ने किया था?

(क) भारत (ख) चीन (ग) रूस (घ) जापान

(2) भारत को बारूद की जानकारी कब मिली?

(क) दसवीं शताब्दी में (ख) तेरहवीं शताब्दी में (ग) बारहवीं शताब्दी में (घ) ग्यारहवीं शताब्दी में

(3) भारतीयों को बारूद की जानकारी कैसे मिली?

(क) चीनी मज़दूरों से (ख) चीनी व्यापारियों से (ग) चीनी वैज्ञानिकों से (घ) क और ख दोनों

(4) भारत में आतिशबाजी के पटाखों का सर्वाधिक प्रयोग कहां होता है?

(क) पूर्वोत्तर भारत में (ख) दक्षिणी भारत में (ग) उत्तरी भारत में (घ) पूर्वी भारत में

(5) राकेट के लिए लोहे के खोलों की खोज की संभावना किस देश के लिए प्रकट की जाती है?

(क) भारत (ख) चीन (ग) रूस (घ) मलेशिया

(6) पिताजी बगीचे में टहल -----।

(क) रही है (ख) रहे हैं (ग) रहा है (घ) रहा हूँ

(7) मौखिक भाषा किसे कहते हैं ?

(क) जिसे हम पढ़ते हैं।

(ख) जिसे हम सुनते हैं।

(ग) जिसे हम लिखते हैं।

(घ) जिस भाषा को हम अपने मुख से बोलते हैं।

(8) अनुकूल का विलोम बताओ -

(क) प्रतिकूल (ख) दुकूल

(ग) फूल

(घ) धूल

(9) कौन सकर्मक क्रिया है ?

(क) रोना (ख) मरना

(ग) टहलना

(घ) बैठाना

(10) माता-पिता में समास है ?

(क) तत्पुरुष

(ख) द्विगु

(ग) बहुव्रीहि

(घ) द्वन्द्व

- (11) जो संतोषी होते हैं , वे सदैव ----- होते हैं ।
(क) दुखी (ख) सुखी (ग) समृद्ध (घ) स्वार्थी
- (12) निम्न में पुल्लिंग है -
(क) हवा (ख) इमारत (ग) चिट्ठी (घ) भवन
- (13) करक के कितने भेद होते हैं -
(क) छ (ख) सात (ग) पांच (घ) आठ
- (14) 'हम' कौन सा सर्वनाम है ?
(क) पुरुषवाचक (ख) निश्चयवाचक (ग) अनिश्चयवाचक (घ) सम्बन्धवाचक
- (15) जो दूसरों पर अत्याचार करे -
(क) दुष्ट (ख) वाचाल (ग) कपटी (घ) अत्याचारी
- (16) वह शब्द युग्म ज्ञात करो जो अन्य शब्द-युग्मों से भिन्न हो -
(क) डॉक्टर और मरीज़ (ख) बादल और बारिश
(ग) सर्दी और गर्मी (घ) सड़क और खेत
- (17) नाक काटना का मुहावरा होगा -
(क) बदला लेना (ख) सम्मान बढ़ाना (ग) प्रतिष्ठा नष्ट होना (घ) इनमे से कोई नहीं
- (18) विराम का अर्थ होता है -
(क) भागना (ख) जागना (ग) ठहराव (घ) रोना
- (19) परिक्रमा में उपसर्ग है -
(क) प (ख) मा (ग) परि (घ) क्रमा
- (20) शुद्ध शब्द का चयन कीजिए -
(क) सतयावादी (ख) सत्यवादी (ग) सात्यावदी (घ) सत्यवादी